



TDSL/CS/BSE/NP/01-2023-24

May 31, 2023

To, Corporate Relationship Department, Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code- 540955

ISIN: INE773Y01014 (TDSL)

Dear Sir,

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement for Audited Financial Results (Standalone) for the quarter and Year ended March 31, 2023

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of newspaper advertisement of Audited Financial Results (Standalone) for the quarter and year ended on March 31, 2023, published in the Newspaper of Financial Express, New Delhi edition English dated 31/05/2023 and Jansatta (Hindi), Lucknow edition dated 31/05/2023. The same has been made available on company's website www.tastydairy.com.

Kindly take note of the same on record.

Yours faithfully,

for TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

Shamshad Alam Company Secretary & Compliance Office

Enclosure: As stated above

Registered office: D-3, UPSIDC, Industrial Area Jainpur, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, India, Pincode - 2093|| Administrative office: G-6,12/483, Ratandham Apartment, McRobertganj, Kanpur Uttar Pradesh, India, Pincode-20800| w:www.tastydairy.com | e:info@tastydairy.com | P:+91(512)4003999 | f:+91(512)2551643 CINNo.:LI5202UP1992PLC014593 Taste that reflects

3

FINANCIAL EXPRESS

TO ANALYSE SHARP FALL IN 5 SECTORS **High interest rates** hit FDI: DPIIT secy

Cites fall in investor appetite as a reason for decline last year

MUKESH JAGOTA New Delhi, May 30

YEAR-ON-YEAR THE **DECLINE** of 22% in foreign direct investment (FDI) last year could be due to a decline in appetite of investors in the face of hardening of interest rates and rising geopolitical uncertainty, secretary in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Rajesh Kumar Singh said Tuesday.

"I can't think of any other reason. It is not as if our FDI policies have become more protectionist. On the contrary, we have kept it very liberal," Singh told FE. Hardening of interest rates would have given better avenues to investors elsewhere. In India, political risk is far less and it has risen elsewhere, he said.

Total FDI inflows, which includes equity inflows and reinvested earnings, declined by 16% on year to \$70.97 billion in the last fiscal, as against \$84.83 billion in 2021-22.



It is not as if our FDI policies have become more protectionist. On the contrary, we have kept it very liberal."

RAJESH KUMAR SINGH, SECRETARY, DPIIT

investment option. Protectionist policies adopted by many countries post-Covid to decrease reliance on other countries could also be the possible reason for dampening of investor sentiment," Singh said.

Decline in real GDP of the US, the UK and Singapore, which accounts for 50% of all FDI, could be the other reason.

Five major sectors where

Monsoon advances after stalling for 11 days

THE COUNTRY'S MONSOON rains advanced into some more parts of southwest Bay of Bengal after stalling for the past 11 days ata far-flung island, the weather department said on Tuesday.

The monsoon, the lifeblood of the country's \$3-trillion economy, delivers nearly 70% of the rain that India needs to water farms and recharge reservoirs and aquifers.

Nearly half of India's farmland, without any irrigation cover, depends on the annual June-September rains to grow a number of crops.

agriculture machinery and Monsoon rains arrived over the Andaman & Nicobar Islands When asked whether on May 19, but then didn't make



any progress until May 30, the India Meteorological Department (IMD) said.

The monsoon advanced into some parts of southwest Bay of

Bengal on Tuesday and conditions are favourable for further advance into more parts of the region during the next 2-3 days, the IMD said. -REUTERS

Numaligarh Refinery fire brought under control

ECONOMY

A FIRE THAT broke out at Numaligarh Refinery's (NRL) hydrocracker unit on Monday night was brought under controlwith no reports of injury, the Assam-based company, a subsidiary of state-run Oil India (OIL), said.

The nearby hydrogen unit has been shut down as a precautionary measure and a probe has been initiated to ascertain the reason behind the fire, an NRL spokesperson said, adding the company is assessing the dam-

age. The fire broke out in vessel number VV-04 in the hydrocracker unit at about 7:20 pm on Monday. The vessel is a cold high-pressure separator. The fire was brought under control within 20 minutes, the



Firefighters attempt to douse the fire at the refinery on Monday

official said.

"An external investigation committee is being constituted to investigate the root cause of the incident and to ascertain the quantum of impact," the com-**FE BUREAU** pany said.

Technical textiles sector set to miss \$40-bn turnover target

exempted from angel tax **ABHINAY KUMAR** would hurt foreign invest-Ahmedabad, May 24

ments in the coming months, Singh said a lot of invest-**INDIA'S TARGET TO** raise the ments would start coming turnover of the domestic techthrough the International nical textiles sector to \$40 bil-Financial Services Centre at lion by 2024 is set to be missed a wide margin, due to a variety "I assume that (angel tax of reasons including insuffirules) are going to lead to the cient R&D and innovation. The influx of funds to the Gift sector clocked a good annual City. That avenue is available. growth of 8-12% in recent It is not that we are closing years, but it was still worth only \$21.95 billion in FY22. down the avenues. It is just

that we want them to come According to Ashwin from better regulated parts of Thakkar, vice-president, Textile the world. We have given a Association of India, the country fairly good facility at the Gift lags behind in the manufactur-

mance fibre demands through imports. Vietnam, South Korea and Taiwan are doing better than us,"he said.

PP Raichurkar, director, MANTRA, a Surat-based independent textile research body, said, "The ongoing research in technical textiles is going to play a crucial part for the future of the textile industry. In the coming times, the demand for medical, biodegradable, industrial, sports, healthcare, automobile and housing textiles will dominate the textile industry."

The technical textile industry is largely associated with

ROOM FOR GROWTH

The sector clocked a good annual growth of 8-12% in recent years

It was worth \$21.95 billion in FY22

The global technical textile market, in 2020, was valued at \$260 billion

including nomex, kevlar, spandex, etc are used extensively in the healthcare, automobile, industries, housing and security industries.

According to a recent report by the textile ministry, the global technical textile market, in 2020, was valued at \$260 billion and is expected to cross \$300 billion by 2025. The driving factors for the industry will be new application areas like innovative R&D, climate change, useful physical properties of technical textiles and the shift from natural to manmade fibres.

The ministry further noted

try. In many developed coun tries, technical textile constitutes anywhere between 30-

70% of total production. Export of technical textiles

stood at \$2.85 billion in FY22, up 28.4% on year, while imports cameinat \$2.46 billion, up 44% on year, reflecting a growing reliance on imports to meet domestic demand. Packtech (41%), indutech (11%), mobiltech (10%), buildtech and hometech (10%) contribute more than two-thirds of the Indian technical textile sector, according to the ministry report. The National Technical Tex-

"The US Federal Reserve FDI equity inflows have has raised interest rates from 0.25% to 4.74% in the last one year, due to which the US has become an attractive

City," the secretary said. declined in 2022-23 are com-

Gift city in Gujarat.

"They will get the same benefit there. I assume a lot of them would like to take the education and metallurgy. opportunity."

"They (the five sectors) had a

share of \$30 billion last year

in 2021-22. In 2022-23 it is

almost down to \$15 billion.

Why exactly FDI in those sec-

tors has come down is to be

analysed. We are hoping to

where FDI has increased

significantly like information

& broadcasting, railway com-

ponents, medical appliances,

machine tools, Singh said.

keeping out Singapore and

Mauritius, which accounted

for 50% of FDI in India even

in FY23, out of the list of 21

jurisdictions that have been

There are other sectors

recover (this year)," he said.

ing of high-performance fibres, which are used in almost all the sectors of manufacturing, including healthcare. "India meets most of its high-perfor-

manufacture of specialised textiles and apparels produced through technological modification of natural and manmade fibres. The industry pro-

duces fabric with higher tenacity, excellent insulation and improved thermal resistance. These new generation fabrics that though India ranks among the most important textile players globally, it is still a small segment with 10-12% share in the overall textiles & clothing industile Mission plans to invest ₹1,480 crore for the growth of the industry, of which ₹1,000 crore will be spent on research on development.

VALIANT COMMUNICATIONS LIMITED

puter hardware and software,

construction, automobiles,

Regd. Office: 71/1, Shivaji Marg, New Delhi-110015 Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC056652 E-mail: investors@valiantcom.com Web: www.valiantcom.com Tel: 011-25928415 AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2023

PARTICULARS	Quarter ended	Quarter ended	Financial Year ended	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations (net)	935.87	348.06	3,150.17	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	107.74	(26.28)	224.22	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	107.74	(26.28)	224.22	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	87.72	(13.28)	168.12	
Total Comprehensive Income (after tax)	92.27	(9.37)	197.76	
Equity share capital	722.35	722.35	722.35	
Earning per share (before and after extra-ordinary items) Basic and Diluted (in ₹)	1.21	(0.18)	2.33	
Note: Summary details of standalone audited financial results:	in the second) (),		
Total income from operations (net)	877.91	323.09	3,019.39	
Profit / (Loss) before tax	116.15	(89.92)	250.21	
Profit / (Loss) after tax	85.82	(68.51)	183,80	
Total Comprehensive Income (after tax)	89.18	(75.41)	186.75	

Place : New Delhi	Inder Mohan Sood
Date : 30" May, 2023 Director Identification	Managing Director on Number: 00001758



TASTY DA	AIRY SPECIALITIES LIMITED
Regd. Office: D-	3, UPSIDC, Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat,
La construction de la constructi	Ittar Pradesh, India, Pincode-209311
CIN: L15202	UP1992PLC014593, Phone No.: 0512-4003999,
Fax No.: 0512-2234244	Email: info@tastydairy.com, Website: www.tastydairy.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023 (Rs. in Lacs).

	n	Q	uarter Ende	ed	Year Ended		
Sr. No	Particuclars	31-Mar-23	31-Dec-22	31-Mar-22	31-Mar-23	31-Mar-22	
31. 140	Particuciars	(Refer Note 4)	(Refer Note 4)	(Refer Note 4)	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	3,290.54	2,836.55	2,623,25	11,246,35	16,243,43	
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, exceptional and/or extraordinary item	(315.49)	(220.22)	(3,689.22)	(955.48)	(4,060.10)	
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax(After Exceptional and/or extraordinary items	124.17	362.23	(3,689.22)	66.63	(4,060.10)	
4	Net Profit / (Loss) after Tax (After Exceptional and/or extraordinary items	(124.00)	418.85	(2,606.82)	(9.15)	(2,896.28)	
5	Total Comprehennsive income for the period comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprensive income (after tax)		420.31	(2,606.37)	(6.27)	(2,895.91)	
6	Equity Share Capital	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	
7	Reserves(excluding Revaluation Reserve) and shown in the balance sheet of the previous year	-		10.000	1,069.50	923,22	
8	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continiuing and discontinuing operations						
	Basic	(0.61)	2.05	(12.76)	(0.04)	(14.17)	
	Diluted	(0.61)	2.05	(12.76)	(0.04)	(14.17)	



Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2023 (TIN CRORES)

220		Standalone				Consolidated					
SI. No.	Particulars	Particulars Quarter Ended		I.	Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
nu.		31st Mar 2023	31st Dec 2022	31st Mar 2022	31st Mar 2023	31st Mar 2022	31st Mar 2023	31st Dec 2022	31st Mar 2022	31st Mar 2023	31st Mar 2022
1	Gross Written Premium	10,351	9,243	8,937	38,791	36,835	10,434	9,321	9,004	39,171	37,128
2	Net Written Premium	8,568	7,422	7,831	31,127	29,760	8,610	7,462	7,866	31,313	29,917
3	Profit Before Tax	159	914	(658)	1,245	160	150.73	908	(670.33)	1,256	178
4	Profit After Tax	155	749	(543)	1,055	164	145	745	(550)	1,061	178
5.	Solvency Ratio (Times)	1.87	1.91	1.66	1.87	1.66	(# /)	, a		5	13 7 1
6.	Net Worth	19,919	19,652	18,232	19,919	18,232	20,705	20,421	18,954	20,705	18,954
7.	Earning Per Share (absolute Figures)	0.94	4.54	(3.30)	6.40	1.00	0.77	4.47	(3.35)	6.36	1.18
	 The above is an extract of the deta and Regulation 52 of SEBI (Listin Financial results are available (www.newindia.co.in) Above financial results have been website. Path on the website: Abou 3. The above results were reviewed b The Board has recommended 38.6 Mumbai 	ng and Other Dis on the website audited by the O at Us>> Investors y the Audit Comm	closure Require s of Stock exc >> Statutory A >> Finance>> Qu ittee and approv	ments) Regulation hanges (www.bs aditors and their arterly Results ed by the Board a	on 2015. The fu seindia.com and r audit report wit t their meeting h	II format of the (1 www.nseindia, h qualified opinic eld on May 29, 20	Quarterly and Ye com) and the on is available in	ar Ended Company the Co.'s	Ne Chairman-C	If of the Boan sd/- erja Kapu um-Managing N 09733917	r

Note :-

- The Standalone financial results are prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind-1. AS"), the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").
- The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 30th, 2023 and statutory auditors have carried out an audit of these financial results.
- The Company has only one business segment i.e. Dairy products, hence segment reporting As per Ind-AS 108 is not Applicable.
- The figures for the last quarters are the balancing figures between audited figures in respect of the full $|4_{\odot}|$ financial year ending March 31st, 2023 and March 31st, 2022 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31st, 2022 and December 31st, 2021 respectively, being the date of the end of the third quarter of the respective financial years which were subjected to limited review.

For Tasty Dairy Specialities Ltd.

Chairman & Whole Time Director

(Atul Mehra)

DIN: 00811607

Place: Kanpur Dated: 30.05.2023





24x7 - Toll free number 1800-209-1415


www.newindia.co.in



Head Office: New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001 INDIA

IRDAI REGN No. 190





CIN: L66000MH1919G0I000526



जनसता

Regional Office- Etawah

विज्ञपि

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इटावा, क्षेत्र के अंतर्गत अपने RSETI एवं FLCC कार्यालय में निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

S NO	OFFICE	DISTRICT	NAME OF THE POST	NO. OF VACANCIES
1	RSETI	ETAWAH	FACULTY	1
2	RSETI	AURAIYA	FACULTY	2
3	RSETI	AURAIYA	OFFICE ASSTT.	2
4	RSETI	ETAWAH	OFFICE ASSTT.	1
5	FLCC	AURAIYA	COUNCELLER	1

नियुक्ति हेतु संबन्धित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप हमारे बैंक के वैबसाइट <u>http://www.centralbankofindia.co.in</u> या हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, इटावा पताः 125, सिविल लाइंस, इटावा-206001 से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15/06/2023 है।

हस्ता./-मुख्य प्रबन्धक इटावा

_{varthana} वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व का मैसर्स थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड)

. जीकृत कार्यालय : नंबर इबीसी-110, वरसिद्धि, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट ल्याण नगर, बैंगलोर-560043, वेबसाइट www.varthana.com, ई-मेल : care@varthana.com, फोन 80-68455777, शाखा कार्यालय : नं. 206, 2सरा तल, सरन चैम्बर्स 2, 5 पार्क रोड, लखनऊ-226001.

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु) जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्त-अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पर्व का मैसर्स थेरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) लखनऊ शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं से ऋण खाता सं. S20LUC-LUC-015581 तथा S18LUC-LUC-003182 में 1) मैसर्स नर्सिंग पब्लिक जूनियर हाई स्कूल इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, ग्राम पालियागोवा, पीओ-नेपुरा, पीएस-पुराकलंदर, जिला-फैजाबाद (अयोध्या) रेलवे लाइन के पास पलियागोवा, उत्तर प्रदेश 224202, 2) मैसर्स श्री नरसिंह लोक शिक्षा संस्थान, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, ग्राम पालियागोवा, डाकघर-नेपुरा, थाना-पुराकलंदर, जिला-फैजाबाद (अयोध्या) रेलवे लाइन के पास पलियागोवा, उत्तर प्रदेश -224202, 3) श्री आदित्य कुमार यादव, पुत्र सहदेव यादव, ग्राम पालियागोवा, डाकघर-नेपुरा, थाना-पुराकलंदर, फैजाबाद (अयोध्या) शहर उत्तर प्रदेश –224202 4) श्रीमती शोभा यादव, पत्नी आदित्य कुमार यादव, ग्राम पालियागोवा, डाकघर-नेपुरा, थाना पुराकलंदर, फैजाबाद (अयोध्या) शहर उत्तर प्रदेश -224202, से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक सूचना में उल्लिखित दिनांक 13.01.2023 तक राशि रु. 27,02,970/- (रुपये सत्ताईस लाख दो हजार नौ सौ सत्तर मात्र) तथा मांग सूचना में उल्लिखित सहमत अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य प्रभारों आदि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सचना दिनांक 16.01.2023 जारी की थी।

हालांकि, यहां ऊपर उल्लिखित आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं द्वारा ब्याज/अन्य प्रभारों सहित पूर्ण राशि का भुगतान करने में विफल होने के कारण, एतद्वारा आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं तथा जनसाधारण को सचना दी जाती है कि वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसने 25 मई, 2023 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार दिनांक 12.05.2023 तक राशि रु. 28,37,134/- (रुपये अट्ठाईस लाख सैंतीस हजार एक सौ चौंतीस मात्र) तथा भुगतान की तिथि तक उपर्युक्त सहमत अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत तथा अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ के प्रभार के अध्यधीन होगा।

प्रतिभूत आस्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आवेदकों/सह-आवेदकों/बंधककर्ताओं का ध्यान धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल सम्पत्तियों का विवरण : खसरा नं. 820/0.091 और 1023/0.169 पर सम्पत्ति प्लॉट का समस्त भाग, माप 0.0433 हेक्टेयर, पालियागोआ, परगना हवेली अवध तहसील सोहावल जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, और निम्नानसार परिबद्धः पर्वः काशी लाल की भूमि उत्तरः नंद किशोर की भूमि, पश्चिमः चकमार्ग, दक्षिणः अमरसेन यादव की भूमि। अधिकृत अधिकारी, ह./- वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नांकः ३१.०५.२०२३ स्थान : पालियागोआ

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड J&K Bank , प्लॉट नंबर 132—134, सेक्टर 44, गुड़गांव (हरियाणा) ,भारत GSTIN: 06AAACT6167G1ZB

31 मई, 2023

गेन :81 (0)0124-4715800, फैक्स :91 (0)0124-4715800, iapmd.del@jkbmail.com, डब्ल्यू: www.jkbank.ne ई—नीलामी सूचना

(सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए) (नियम 8(6) के परंतुक देखें)

तद्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को नोटिस दिय नाता है कि नीचे दी गई संपत्ति मैसर्स एस पी वियरिंग अपैरल्स, आरजेड—डी6, तीतापुरी पार्ट—1, डाबरी, नई दिल्ली—45, के पक्ष में द जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, लाजपत नगर दिल्ली को विस्तारित क्रेडिट सुविधा वे लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा सरफेर्स अधिनियम की धारा 13(4) के तहत बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है जिसे बैंक को उसके निम्नलिखित इसके मालिकों बन्धककर्ताओं और जमानतदारों के माध्यम से सम्बंधित फर्मों से बैंक के बकायों दिनांक 30.04.2023 के अनुसार रु.612.51 लाख (रुपए छह करोड़ बारह लाख और इक्यावन हजार मात्र) साथ ही ब्याज, लागत आदि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" "जैसा है जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर 04.07.2023 को ई—नीलामी के माध्यम ो बेचा जाएगा

मैसर्स एस.पी.वियरिंग अपैरल्स आरजेड–डी6, सीतापुरी पार्ट–1, डाबरी, नई दिल्ली-45, मालिक श्री दीपक कपूर।

 श्री दीपक कपूर पुत्र स्वर्गीय श्री वाष्णु बागवान कपूर,निवासी 9/54 पहली मंजिल पश्चिमी पंजाबी बाग नई दिल्ली-26 (मालिक / उधारकर्ता सह बंधककती)। सुश्री रीमा खन्ना पत्नी श्री मदन मोहन ,निवासी 9ई, अंजन सुलखा अपाटर्स लाल बंगला, अथवा लाइन्स, सूरत गुजरात (गारंटर सह बंधक)।

अचल संपत्ति का विवरण दीपक कपूर के नाम पर आवासीय पलेट संख्याः 9/54 प्रथम तल पश्चिम पंजाब ग, नई दिल्ली–26 का साम्यिक बंधक। उपरोक्त संपत्ति के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य . 308.79 लाख (तीन करोड आठ लाख और उन्न्यासी) हजार रुपये मात्र) और ईएमर .30.88 लाख (तीस लाख अठासी हजार रुपये मात्र) है।

नंपत्ति का पूर्ण विवरण सहित बोली दस्तावेज / प्रारूप और सभी नियम एवं शर्ते वेबसाइट "http://sarfaesi.auctiontiger.net" (संपर्क व्यक्ति– राम शर्मा, मो: –9978591888 नं. 079-68136880 / 68136837, मोब.: +91 9265562821 / 18, ईमेल support@auctiontiger.net) से प्राप्त और इस पर जमा की जा सकती हैं। सभी ग्रकोर से पूर्ण बोलियां केवल 03.07.2023 तक या उससे पहले ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं। ई—नीलामी का समय दिनांक 04.07.2023 को अपराह 3:00 बजे होगा। बैंक अधिकारियों के **संपर्क विवरण : श्री रजनीश महाजन (अधिकृत अधिकारी), मोबा**: 9967753294 और श्री नरेश शर्मा (शाखा प्रबंधक, लाजपत नगर, दिल्ली) मो. न 9419199749 हੈਂ।

हस्ता (श्री रजनीश महाजन) प्राधिकृत अधिकारी

द जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेब

पह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)नियममावली, 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उत्त ऋण खातों के उधारकर्ताओं / बंधकदारों / रिंटरों को नीलामी की तिथि से पूर्व ब्याज एवं व्यय सहित ऋण की कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिनों का नोटिस भी है, ऐसा न करने पर स्पर्भतास की नीलामी कर दी जायेगी तथा ब्याज एवं व्यय सहित शेष राशि, यदि कोई हो, की वसूली उनसे की जायेगी दिनांक: 31.05.2023

श्वान : गुरुग्राम, हरियाणा (प्राधिकृत अधिकारी

तद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बरडीहा, वि.ख. हौया द्वारा (एस.एल न.डब्लू) योजना अन्तर्गत एस. बी. एम., 15वाँ वित्त एवं मनरेगा योजना की प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ोम्न विवरण के अनुसार व्यक्तिगत खाद गढ़ढा, व्यक्तिगत नाडेप व्यक्तिगत वर्मी. सामदायिक खाद गढ गडेप सामुदायिक वर्मी खाद गङ्घा, संस्थागत कचरा पात्र, प्लास्टिक बैंक, कचरा वाहून, खच्छता किट गर०आर०सी०, इन्सिनरेटर, व्यक्तिगत सोकपिट, सामुदायिक स्थलों ⁄ सरकारी हैण्डपम्पों पर साकपिट सील्ट कैचर, फिल्टर चौम्बर, वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड, यू टाइप नाली, हैण्डपम्प प्लेटफार्म मरम्मत, स्टाग ॉटर निष्पादन, किचन गार्डन, सेप्टिक टेंक हेतू व्यक्तिगत लीच पिट, सामुदायिक लीच पिट, प्रथम श्रेर्ण ईट, एस.ओ. वी. ईट, ईट, गिट्टी, सफेद बालू, चोपन बालू, सीमेन्ट, सरिया, पत्थर गिट्टी 20 एमएम 10 एमएम, 40 एमएम, जिगजैग इण्टरलॉकिंग, लोहे का इंगल, लोहे की जाली, पी.वी.सी. पाईप, ह्यूम पाईप, बैटरी चालित ई–रिक्शा, पेंट, ठेला गाड़ी, इन्चर्टर बैटरी, आदि के लिये आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदा दर्ष दिनांक 30.05.2023 से 06.06.2023 को अपराह 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म गपनी निविदा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांव 06.06.2023 को अपराह 02:00 बजे के बाद खोली जायेगी।

क.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर
1	ईट 150 एम.एम. प्रथम श्रेणी / एस. ओ.बी. ईंट	प्रति हजार	
2	सीमेन्ट	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी.	
4	स्टोन ब्लास्ट, डाला गिट्टी, पत्थर गिट्टी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक, ईट गिट्टी	प्रति घन मी.	
5	करकर / एसबेस्टर सीट, पैनल आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग.	
6	पैक्स ब्लाक ईट इण्टरलाकिंग ईट∕जागजेडा इण्टरलाकिंग ईट	प्रति हजार	
7	सोलर लाईट/विद्युत सामग्री/ स्ट्रीट लाईट, हाइमास्क सोलर लाइट	प्रति नग	
8	शौचालय निर्माण सामग्री/पंचायत भवन निर्माण सामग्री	प्रति कुन्तल	
9	ह्यूम पाइप 150 एम.एम. 300 एम.एम. 350 एम.एम. 600 एम.एम. 800 एम.एम	प्रति मी.	
10	टाइल्स विभिन्न साइज	प्रति नग	
11	गट्टी की भराई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी.	
12	सफाइकर्मी स्वच्छता कीट⁄ सेनेटाइजर, डस्टबीन, प्रिकास्ट कंकरीट बेंच	प्रति नग.	
13	कटीला तार एवं ईगल	प्रति नग.	
14	ओपेन जिम के संबंधित सामग्री / इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प सामग्री/रिबोर	प्रति नग.	
15	मैदान के सुन्दरीकरण हेतु घास	प्रति घन मी.	
16	चूना, पेन्ट, वाल पॉटंग व प्रचार-प्रसार इत्यादि	प्रति नग	
17	विडिया कैमरा, दिशासूचक बोर्ड पब्लिक अड्रेस सिस्टम	प्रति नग	
18	गौशाला में चूनी चोकर, भूसा, मनरेगा पार्क में खेलकूद, जिम, झूला व अन्य सामग्री	प्रति नग	
19	हैण्डपम्प की निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी	प्रति नग	
20	डस्ट रिमूवर मशीन	प्रति नग	
21	ब्रेडिंग मशीन	प्रति नग	
22	बेलिंग मशीन	प्रति नग	
23	आदि		

नियम एवं शर्ते

 सामग्री की मात्रा कार्य स्वीकृत होने के बाद निर्धारित की जायेगी। 2. आवश्यकतानूसार सामग्री आपूर्ति प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के आदेश पर ही की जायगी,

प्रन्यथा नहीं।

सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि से स्वीकृत दर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। . सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा १०० रुपये के स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड भरना अनिवार्य होगा तदोपरान्त आपर्ति किया जायेगा।

सामग्री आपूर्ति के बाद निर्माण समिति की स्वीकृति के बाद भुगतान किया जायेगा। '. आपूर्तिकर्ता का सेल टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तथा आयकरदाता हो प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।

B. प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. के स्वीकृत दर से अधिक न हो।

 सामग्री आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा में की जानी अनिवार्य होगी। 10. सामग्री को गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की दशा में भुगतान की धनराशि नियमानुसार कटौतों कर ली जायेगी।

- 11. निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। 12. आपूर्तिकर्ता का 4% वाणिज्यकर एवं 2.24% आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया
- जायेगा । 13. निविदा हेतु धरोहर धनराशि 5000 / – निविदा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। रामबचन सावन सोनकर

सचिव ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत—बरडीहा ग्राम पंचायत –बरडीहा

विकासखंड– हरैया, आजमगढ विकासखंड– हरैया, आजमगढ

TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

Regd. Office: D-3, UPSIDC, Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, India, Pincode-209311 CIN: L15202UP1992PLC014593, Phone No.: 0512-4003999,

Tasty@airy

Fax No.: 0512-2234244 Email: info@tastydairy.com, Website: www.tastydairy.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023 Lacs)

		0	uarter End	Year Ended		
Sr. No	Particuclars	31-Mar-23	31-Dec-22	31-Mar-22	31-Mar-23	31-Mar-22
51. 140	r ai licuciai s	(Refer Note 4)	(Refer Note 4)	(Refer Note 4)	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	3,290.54	2,836.55	2,623.25	11,246.35	16,243.43
	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, exceptional and/or extraordinary item		,	(3,689.22)	(955.48)	(4,060.10)
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax(After Exceptional and/or extraordinary items		362.23	(3,689.22)	66.63	(4,060.10)
4	Net Profit / (Loss) after Tax (After Exceptional and/or extraordinary items	(124.00)	418.85	(2,606.82)	(9.15)	(2,896.28)
5	Total Comprehennsive income for the period comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprensive income (after tax)		420.31	(2,606.37)	(6.27)	(2,895.91)
6	Equity Share Capital	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00
7	Reserves(excluding Revaluatioin Reserve) and shown in the balance sheet of the previous year				1,069.50	923.22
8	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continiuing and discontinuing operations					
	Basic	(0.61)	2.05	(12.76)	(0.04)	(14.17)
	Diluted	(0.61)	2.05	(12.76)	(0.04)	(14.17)

Note :-The Standalone financial results are prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind-

कार्यालय : ग्राम पंचायत बरडीहा, वि.खं. हरैया–आजमगढ़ एस. एल. डब्ल्यू. एम. के तहत निविदा

ात्रांकः- 312/पी०आर0ओ0/नि0वि०/न०नि०शाह0/2023 अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत 02 स्थानों पर पार्किंग/बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति स्वीकृत कार्यों की पुनः ई-निविदायें दिनांक 13/06/2023 को अपरान्ह 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा प्रणाली की समस्त कार्यवाही वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर की जायेगी। कार्य की समस्त शर्ते व नियम उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिनका अनिवार्य रूप से अवलोकन करने उपरान्त ही ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें आमंत्रित ई-निविदायें दिनांक 13/06/2023 को अपरान्ह 04.00 बजे रे खोली जायेगी। बिना कारण बताये टेण्डर को स्वीकृत / अस्वीकृत निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा। उक्त निविदाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी।

कार्यालय नगर निगम, शाहजहॉपुर

नगर आयक्त

दिनांक: 29/05/23

कार्यालय : ग्राम पंचायत रामपुर देवारा, वि.खं. हरैया–आजमगढ़ एस. एल. डब्ल्यू. एम. के तहत निविदा

रतदवारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रामपुर देवारा, वि.ख. हौया द्वारा (एस ल.एम.डब्लू) योजना अन्तर्गत एस. बी. एम., 15वाँ वित्त एवं मनरेगा योजना की प्राप्त धनराशि के सापेक्ष नेम्न विवरण के अनुसार व्यक्तिगत खाद गढ्ढा, व्यक्तिगत नाडेप व्यक्तिगत वर्मी, सामुदायिक खाद गढ़ा नाडेप सामुदायिक वर्मी खाद गड्ढा, संस्थागत कचरा पात्र, प्लास्टिक बैंक, कचरा वाहन, स्वच्छता किट गर०आर०सी०, इन्सिनरेटर, व्यक्तिगत सोकपिट, सामुदायिक स्थलों∕सरकारी हैण्डपम्पों पर साकपिट सील्ट कैचर, फिल्टर चौम्बर, वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड, यू टाइप नाली, हैण्डपम्प प्लेटफार्म मरम्मत, स्टा भाटट कथर, 19लटर याम्बर, वरट एश्व्लाइजशन पाण्ड, यू टाइप नातो, हण्डपमा प्लटफाम मरम्पत, रटाम वॉटर निष्पादन, किवन गार्डन, सेप्टिक टैंक हेतू व्यक्तिगत लीच पिट, सामुदायिक लीच पिट, प्रथम श्रेणी ईट, एसओ, बी. ईट, ईट, पिट्टी, सफेद बालू, चोपन बालू, सीमेन्ट, सरिया, पत्थर गिट्टी 20 एमएम एमएम, 40 एमएम, जिगजैंग इण्टरलॉकिंग, लोहे का इंगल, लोहे की जाली, पी.वी.सी. पाईप, ह्यूम पाईप, बैटरी चालित ई–रिक्शा, पेंट, ठेला गाड़ी, इन्वर्टर बैटरी, आदि के लिये आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदा दरे दिनांक 30.05.2023 से 06.06.2023 को अपराह 0200 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म वागती विवित्त विर्णिव वाटा विर्णिव वाटा कि के जाता ना प्रात्म का प्रात्म के जाती है। इच्छुक फर्म अपनी निविदा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांव 06.06.2023 को अपराह 02:00 बजे के बाद खोली जायेगी।

क.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर
1	ईट 150 एम.एम. प्रथम श्रेणी / एस. ओ.बी. ईंट	प्रति हजार	
2	सीमेन्ट	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी.	
4	स्टोन ब्लास्ट, डाला गिड्डी, पत्थर गिड्डी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक, ईंट गिड्डी	प्रति घन मी.	
5	करकर⁄एसबेस्टर सीट, पैनल आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग .	
6	पैक्स ब्लाक ईट इण्टरलाकिंग ईट∕जागजेडा इण्टरलाकिंग ईंट	प्रति हजार	
7	सोलर लाईट∕विद्युत सामग्री∕ स्ट्रीट लाईट, हाइमास्क सोलर लाइट	प्रति नग	
8	शौचालय निर्माण सामग्री / पंचायत भवन निर्माण सामग्री	प्रति कुन्तल	
9	ह्यूम पाइप 150 एम.एम. 300 एम.एम. 350 एम.एम. 600 एम.एम. 800 एम.एम	प्रति मी.	
10	टाइल्स विभिन्न साइज	प्रति नग	
11	गडी की भराई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी.	
12	सफाइकर्मी स्वच्छता कीट/ सेनेटाइजर, डस्टबीन, प्रिकास्ट कंकरीट बेंच	प्रति नग.	
13	कटीला तार एवं ईगल	प्रति नग.	
14	ओपेन जिम के संबंधित सामग्री / इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प सामग्री / रिबोर	प्रति नग.	
15	मैदान के सुन्दरीकरण हेतु घास	प्रति घन मी.	
16	चूना, पेन्ट, वाल पॉटंग व प्रचार–प्रसार इत्यादि	प्रति नग	
17	विडिया कैमरा, दिशासूचक बोर्ड पब्लिक अड्रेस सिस्टम	प्रति नग	
18	गौशाला में चूनी चोकर, भूसा, मनरेगा पार्क में खेलकूद, जिम, झूला व अन्य सामग्री	प्रति नग	
19	हेण्डपम्प की निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी	प्रति नग	
20	डस्ट रिमूवर मशीन	प्रति नग	
21	ब्रेडिंग मशीन	प्रति नग	
22	बेलिंग मशीन	प्रति नग	
23	आदि		

नियम एवं शर्ते

।, सामग्री की मात्रा कार्य स्वीकत होने के बाद निर्धारित की जायेगी। 2. आवश्यकतानुसार सामग्री आपूर्ति प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के आदेश पर ही की जायगी,


अन्यथा नहीं। सामग्री की मात्रा घटायी या बढायी जा सकती है।

- सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि से स्वीकृत दर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। . सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड भरना अनिवार्य होगा तदोपरान
- आपर्ति किया जायेगा। सामग्री आपूर्ति के बाद निर्माण समिति की स्वीकृति के बाद भुगतान किया जायेगा। 7. आपूर्तिकर्ता का सेल टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेंशन अनिवार्य तथा आयकरदाता हो प्रमाणित
- छायाप्रति संलग्न की जाय। 8. प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. के स्वीकृत दर से अधिक न हो।
- सामग्री आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा में की जानी अनिवार्य होगी।
- 10. सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की दशा में भुगतान की धनराशि नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी।
- 11. निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। 12. आपूर्तिकर्ता का 4% वाणिज्यकर एवं 2.24% आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया
- जायेगा 13. निविदा हेत् धरोहर धनराशि 5000 ∕ − निविदा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

गापचा हतू वराहर वगर⊓रा 50007 − 1गापचा	लामात धारा मिलारत किंव गया है।
ँ विभा सिंह	सावन सोनकर
ग्राम प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत– रामपुर देवारा	ग्राम पंचायत –रामपुर देवारा
विकासखंड— हरैया, आजमगढ	विकासखंड– हरैया, आजमगढ़

कार्यालय : ग्राम पंचायत सिवान, वि.खं. हरैया–आजमगढ़ एस. एल. डब्ल्यु. एम. के तहत निविदा

को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिवान, वि.ख. हौया द्वारा (एस.एल. तदवारा सर्वसाधारण म.डब्लू) योजना अन्तर्गत एस. बी. एम., 15वाँ वित्त एवं मनरेगा योजना की प्राप्त धनराशि के सापेक्ष नेम्न विवरण के अनुसार व्यक्तिगत खाद गढ़ढ़ा, व्यक्तिगत नाडेप व्यक्तिगत वर्मी, सामुदायिक खाद गढ़ा नाडेप सामुदायिक वर्मी खाद गङ्घा, संस्थागत कचरा पात्र, प्लास्टिक बैंक, कचरा वाहन, स्वच्छता किंट, आर०आर०सी०, इन्सिनरेटर, व्यक्तिगत सोकपिट, सामुदायिक स्थलों ∕ सरकारी हैण्डपम्पों पर साकपिट सील्ट कैंचर, किल्टर चौम्बर, वेस्ट स्टेब्लाइजेशन पॉण्ड, यू टाइप नाली, हैण्डपम्प स्लेटफार्म मरम्पत, स्टार्म वॉटर निष्पादन, किंचन गार्डन, सेप्टिक टैंक हेतू व्यक्तिगत लीच पिट, सामुदायिक लीच पिट, प्रथम श्रेणी ईट, एस.ओ. बी. ईट, ईट, गिट्टी, सफेद बालू, चोपन बालू, सीमेन्ट, सर्रिया, पत्थर गिट्टी 20 एमएम 10 एमएम, 40 एमएम, जिगजेग इण्टरलॉकिंग, लोहे का इंगल, लोहे की जाली, पी.वी.सी. पाईप, ह्यूम पाईप बैटरी चालित ई–रिक्शा, पेंट, ठेला गाड़ी, इन्वर्टर बैटरी, आदि के लिये आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदा दरें देनांक 30.05.2023 से 06.06.2023 को अपराह 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म भूपनी निविता निर्धारित अवधि के अन्तर्गत गाम पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निविता दिनांक 6.06.2023 को अपराह 02:00 बजे के बाद खोली जायेगी।



()





financialexpress.com

शाखा कार्यालयः तीसरी मंजिल, प्रिंसटन बिजिनेस पार्क, 16, अशोक मार्ग, निकट जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

बिक्री/ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक नीलामी

प्रतिशूति हित् (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('सरफेसी नियम') के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकर गैर पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''प्रतिभूतीकरण अधिनियम, 2002'') के तहत अचल संपत्तियों को

जार कुला में आ कहूत रहे के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह के के लिए ई-नीलापी बिक्री यूचना एदहारा जन सामान्य के और विशेष रूप से गुलाटी स्टोर्स प्राइवेट लिपिटेड (''कर्जचार''), तथा श्री जतिन गुलाटी, सुश्री श्वेता गुलाटी, श्री करस गुलाटी, श्री राजीव गुलाटी तथा श्री दिलप्रीत सिंह विर्क एवं बंधककर्ता श्री दिलप्रीत सिंह विर्क (सभी ''सह-कर्जचार'') को सुचना दी जाती है कि प्रतिभुत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल जिसका भौतिक कब्जा सम्पत्ति बजाज) फाइनेंस लिमिटेड (''प्रतिभुत लेनदार ध आधा हुन्य आपगुर धाग्वार के मांच प्रचयत्र गांधा गांव जायां जायां जायां लोका माधिक केवनी समाय प्रचान निवनत धानक र आगुर धानक र के अधिकृत प्राप्तिकरों द्वारा कर दिला गया था, प्राप्तिनुत लोनदार के कर्जदार तथा सम्ह-कर्जदारों से कालये क. 4.31,88,21.107 की वसूरी के लिए ई-नीलामी द्वारा 11 मई, 2023 को ''जहाँ है जैसे हैं'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वही है'' आधार पर की जायेगी।

बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	संचिदा जमा करने की अन्तिम तिथि तथा जमा घरोहर राशि (ईएमडी)-आरविशत पुल्व का 10% जमा करने का समय संविदा घृदित्व दर सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ई-नीलामी की तिथि
असरा ने, 279 (मिन) का हिस्सा, बाके सराय जोगा, गोरिन्दा पार सराव, पराना-गोरिन्दा पार सरावन, तरसाल-सरामगंज, विला उन्चार, उत्तर प्रदेश, पिन कोट-209841 पर स्थित पूर्व 12 गीरर चौड़ी सड़क परिचम अल्ब धूमि उत्तर मुद्दे कर रोड दक्षिण प्रदी कर रोड		03.07.2023 को 5.00 बजे अप. तक इंपमडी गरिंग : रु 15,00,000 /- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) संविदा चुद्धि दर रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) सम्पत्ति के सिरीक्षण की तिथि 12.06.2023	04.07.2023 को 11:00 बजे पूर्वा. से 04:00 अप.

ईएमडी जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण और ईएमडी के भुगतान का तरीका बिक्री के विस्तुत नियमों और शर्ती में दिया गया है। इच्छक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले उपरोक्त प्रतिभुत संपत्ति के संबंध में स्वयं जांच-पड़ताल कर लें।

सफल बोलीदाता संबंधित अधिकारियों के साथ नाम हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी करेगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बजाज फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें

ऑनलाइन संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	03.07.2023 को 5.00 बजे अप. तक
ईएमडी का भुगतान	(1) पुणे में देव वजाज फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राप्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, निम्नलिखित में से किसी भी पते पर 03.07.2023 को या उससे पहले जमा किया जाना है: श्री विनय सोबती अधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पताः कार्यालय नंबर 1152, 11वीं मेंजिल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, प्लॉट-ईंS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034, फोन नंबर: 9871175036 या
	निम्नलिखित को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम सेः खाते का नामः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बैंक का नामः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। खाता संख्याः ०००७०३ऽ००००१८०, आईएफएससी कोड: HDFC0000007, शाखाः भंडारकर रोड, पुणे 411004
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	04.07.2023 को 11:00 वजे पूर्वा. से 04:00 वजे अप. अन्तिम पांच मिनटों में रखे जाने की स्थिति में प्रत्येक पांच मिनट के स्वतः विस्तार के अध्यधीन

नियम एवं शर्तें

- प्रतिभूत आस्ति/परिसंपत्ति को प्रतिभूत लेनदार के अनुमोदित सेवा प्रदाता अर्थात बैंक-ई-नीलामी के माध्यम से ई-नीलामी हारा बेचा जाएगा जो ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता कर रहा है।
- य प्रति करने ने प्रति कृत के विषयों के राजका कर रहा है। यह बिक्री इस नोटिस में शामिल नियमों और शर्ती और निर्धारित बोली दस्तावेज में बताए गए नियमों और शर्ती के अधीन है। इच्छक पार्टियां/बोलीदाता सेवा प्रदात की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर जाकर कथिन बोली दस्तावेज/बोली फॉर्म और ई-नीलामी के लिए रखी गई प्रतिभूत आस्ति/संपत्ति क विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

संपत्ति का निरीक्षण प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ किया जा सकता है।

- इच्छूक पार्टिनों को ई-नीलामी में भाग लेने और बोली लगने को अनुमति केखत भगे दी जाएगी जब ईएमडी रात्रि प्रतिभूत लेनदर के प्राधिकृत अधिकारी हारा बोली दस्ताबेज/बोली प्राप्त में निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्राप्त कर ली गई हो।
- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी/या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित. स्थगित या रद्द करने क
- अधिकार, सुर्वाधन रक्षता है। सफल बोलोदाता फल से सुपतान को गई इंएमडी को समायोजित करने के बाद बिक्रो मूल्य को राशि का 25% तत्काल यानी उसी दिन या अधिकतम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्पेब्रेहते के बाद अगल कार्य दिस मोटीम सक ज्या करोग, ऐसा न करने पर प्राधिकृत अधिकारी बावों सी स्पेब्र के बाद बिना किसी पूर्व सुक्ना के इंएमडी को जल्त कर लिया जाएग। बिक्री वसूली का शेष 75% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीक्ष से पदह दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर देव होगा जो कि लिखित रूप में और पुरी तरह से अधिकृत अधिकारी के विवेक पर सहमत हो। सफल बोलीदात द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि को जब्त कर लिवा जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और
- कार उमान में भूस के नागर में, तराभ कार परा राज पान भग गय गोन का भग भर तराभा आर पाता पता पता ने महासाम के तरह रख सुब्रहकती बोलीदान का संपति रागि के संबंध में कोई वया आंधकर नहीं होगा। प्रायिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, बिक्री के लिए रही। गई उपरोक्त प्रतिभूत आस्ति,परिसंपत्ति पर कोई अन्य ज्ञष्टाभार नहीं है। हालांकि, प्राधिकरण को देव कोई भी वैधानिक युक्ल और देव अन्य देव रागि और संपत्ति पर बकाबा देव क्रेता हास कुत किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति संपत्ति के स्वामिल और संपत्ति पर के विरुद्ध सभी बकाया/दावों/भार के बारे में अपनी स्वतंत्र पृछताछ करेगा/करेगी। ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिभुत लेनदार के किसी भ प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजदा और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह प्रतिभत लेनदा के लिए ज्ञात हो या अज्ञात, प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पश्च के दावे / अधिकारों / बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही
- . सफल बोलीदाता को कानून के तहत लागू होने वाले स्टाम्प जुल्क, पंजीकरण जुल्क, आकस्मिक व्यय आदि जैसे परिवहन के लिए देय जुल्क/जुल्क वहन करना
- सरफैसी अधिनियम के तहत बिक्री प्रमाण पत्र पुरी बोली राशि और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद ही सफल बोलीदाता के पक्ष में निष्पादित किव
- जाएगा। 10. सरफेसी निवमाबली के नियम 9(1) के तहत कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को एतदद्वारा तीस (30) दिनों का नोटिस दिया जाता है कि यदि मांग सूचना दिनांक .04.08.2021 के अनुसार आगे ब्याज, लागत और सुविधाओं के तहत बकाया सभी शुल्कों का भूगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि के मामले में उपर्युत्त प्रतिभुत/संपत्ति इस नोटिस के अनुसार बेची जाएगी।

आग पुण्तभाग कर नात्व भरु जातुकार वया जाएगा। किसी अन्य स्पष्टीकरणजानकारी के लिए, इच्छुक पश्च प्रारिकृत अधिकारी श्री वित्तव सोबती प्राविकृत अधिकारी, बजाज फाइनेस लिमिटेड, पताः कार्यालय नंबर 1152, 11वी मंजिल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, प्लॉट-ईंड, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली 110034, फोन नंबर: 9871175036 से संपर्क कर सकते हैं।

	0.7
स्थान : उन्नाव	अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 31.05.2023	बजाज फाइनेंस लिमिटेड

- Securities and Exchange Board of India ("SEBI").
- The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 30th, 2023 and statutory auditors have carried out an audit of these financial results.

AS"), the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), as applicable and guidelines issued by the

- The Company has only one business segment i.e. Dairy products, hence segment reporting As per Ind-AS 108 is not Applicable.
- The figures for the last quarters are the balancing. figures between audited figures in respect of the full financial year ending March 31st, 2023 and March 31st, 2022 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31st, 2022 and December 31st, 2021 respectively, being the date of the end of the third quarter of the respective financial years which were subjected to limited review.

For Tasty Dairy Specialities Ltd

Place: Kanpur Dated: 30.05.2023

Chairman & Whole Time Directo DIN: 00811607

(Atul Mehra

VIKALP SECURITIES LIMITED

Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH - 208001 CIN - L65993UP1986PLC007727 , Contact No: 0512-2372665 Email id : vikalpsecuritieslimited@gmail.com Website :www.vikalpsecurities.com

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31* MARCH. 2023

Rs. In Lacs except EPS

Sr.		Quarter Ended		d	Year Ended	Year Ended
No.		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	5.15	5.56	4.43	21.61	19.89
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)		0.18	-1.59	-0.40	-1.99
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-0.82	0.18	-1.59	-0.40	-1.99
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and and / or Extraordinary items)	-0.82	0.18	-1.59	-0.40	-1.99
5.	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period(after Tax) and other Comprehensive Income(after Tax)]	-0.91	1.68	-1.75	0.98	0.02
6.	Equity share capital(Face value of Rs.10/-each	305.19	305.19	305.19	305.19	305.19
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of the Previous year	0.00	0.00	0.00	126.48	125.27
8.	Basic and diluted EPS(Not Annulized) (Rs.)					
	Basic	-0.03	0.01	0.05	-0.01	-0.07
	Diluted	-0.03	0.01	-0.05	-0.01	-0.07

Note : The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended audited Financial Results of 31st March, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and yearended Financial Results of 31* March, 2023 are available on the website of Bombay Stock Exchange Limited www.bseindia.com and on the website of the Company www.vikalpsecurities.com.

	······································
Place : Kanpur	DIN: 00687890
Date :30th May,2023	Director
	Managing
	ArunKejriwal
	Sd/-
	For Vikalp Securities Limited

क.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर
1	ईट 150 एम.एम. प्रथम श्रेणी / एस. ओ.बी. ईंट	प्रति हजार	
2	सीमेन्ट	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी.	
4	स्टोन ब्लास्ट, डाला गिडी, पत्थर गिडी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक, ईंट गिडी	प्रति घन मी.	
5	करकर / एसबेस्टर सीट, पैनल आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग.	
6	पैक्स ब्लाक ईट इण्टरलाकिंग ईट∕जागजेडा इण्टरलाकिंग ईंट	प्रति हजार	
7	सोलर लाईट / विद्युत सामग्री / स्ट्रीट लाईट, हाइमास्क सोलर लाइट	प्रति नग	
8	शौचालय निर्माण सामग्री/पंचायत भवन निर्माण सामग्री	प्रति कुन्तल	
9	ह्यूम पाइप 150 एम.एम. 300 एम.एम. 350 एम.एम. 600 एम.एम. 800 एम.एम	प्रति मी.	
10	टाइल्स विभिन्न साइज	प्रति नग	
11	गडी की भराई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी.	
12	सफाइकर्मी खच्छता कीट⁄ सेनेटाइजर, डस्टबीन, प्रिकास्ट कंकरीट बेंच	प्रति नग.	
13	कटीला तार एवं ईगल	प्रति नग.	
14	ओपेन जिम के संबंधित सामग्री / इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प सामग्री/रिबोर	प्रति नग.	
15	मैदान के सुन्दरीकरण हेतु घास	प्रति घन मी.	
16	चूना, पेन्ट, वाल पॉटंग व प्रचार–प्रसार इत्यादि	प्रति नग	
17	विडिया कैमरा, दिशासूचक बोर्ड पब्लिक अड्रेस सिस्टम	प्रति नग	
18	गौशाला में चूनी चोकर, भूसा, मनरेगा पार्क में खेलकूद, जिम, झूला व अन्य सामग्री	प्रति नग	
19	हैण्डपम्प की निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी	प्रति नग	
20	डस्ट रिमूवर मशीन	प्रति नग	
21	ब्रेडिंग मशीन	प्रति नग	
22	बेलिंग मशीन	प्रति नग	
23	आदि		

नयन ४५ राज				
. सामग्री की मात्रा कार्य स्वीकृत होने के बाद निर्धारित की जायेगी।				
. आवश्यकतानुसार सामग्री आपूर्ति प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के आदेश पर ही की जायगी,				
अन्यथा नहीं।				
. सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है।				
. सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि से स्वीकृत दर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।				
. सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा १०० रुपये के स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड भरना अनिवार्य होगा तदोपरान्त				
भापूर्ति किया जायेगा।				
. सामग्री आपूर्ति के बाद निर्माण समिति की स्वीकृति के बाद भूगतान किया जायेगा।				
. आपूर्तिकर्ता का सेल टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेंशन अनिवार्य तथा आयकरदाता हो प्रमाणित				
ब्रयाप्रति संलग्न की जाय।				
. प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. के स्वीकृत दर से अधिक न हो।				
). सामग्री आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा में की जानी अनिवार्य होगी।				
0. सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की दशा में भूगतान की धनराशि				
नेयमानुसार कटौती कर ली जायेगी।				
1. निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।				
2. आपूर्तिकर्ता का 4% वाणिज्यकर एवं 2.24% आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया				
नायेगा।				
3. निविदा हेतु धरोहर धनराशि 5000 / – निविदा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।				
राजकुमार सावन सोनकर				
ग्राम प्रॅंधान सचिव				
ग्राम पंचायत— सिवान ग्राम पंचायत — सिवान				
विकासखंड– हरैया, आजमगढ विकासखंड– हरैया, आजमगढ़				

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Lucknow